



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 483) पटना, मंगलवार, 30 अगस्त 2011

सं0 2/सी0-1024/2008-सा0प्र0-8513

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 जुलाई 2011

श्री सीताराम यादव, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंडौल (मधुबनी) कोटि क्रमांक 694/08 के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप-पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 6959, दिनांक 20 जुलाई 2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाई गयी। विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आठ आरोपों में से पाँच को आंशिक रूप से प्रमाणित माना है। अतएव जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सीताराम यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 का नियम 14 (i) एवं (v) के तहत निम्नालिखित दंड संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन।

(ii) तीन वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ श्री सीताराम यादव, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धनाथ राम,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 483-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>